

जनपद - जालौन, उत्तर प्रदेश
प्रेस नोट सं0 - 25 दिनांक - 13.08.2022

थाना रेडर पुलिस द्वारा अवैध हाथी के दाँतो की तस्करी करने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश कर 04 अभियुक्तगणों को 16 किलो हाथी दांत (कीमत करीब एक करोड़ दस लाख रुपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण:-

1. ऊधव प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0 रामकिशोर गुप्ता निवासी नरोत्तमनगर कालोनी प्लाट नं0 14 नगवा चुंगी थाना लेका जनपद बनारस
2. अमीन उर्फ पप्पू पुत्र यासीन निवासी म0नं0 B-26/272A दुर्गाकुण्ड थाना मोहल्लूपुर जनपद बनारस
3. सकील पुत्र कबीर नि0ग्राम गुथियारी थाना मौदहा जनपद हमीरपुर
4. मुस्ताख पुत्र मुख्तार खाँ मोहल्ला अलीगंज थाना बाँदा जनपद बाँदा

बरामदगी का विवरण

1. 16 किलोग्राम अवैध हाथी का दाँत अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपये
2. एक अदद लोहे की आरी
3. एक अदद डिजायर गाड़ी वाहन सं0 UP90 P 8788 रंग सफेद
4. 1,24,000 रुपये नगद
5. 04 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय:-

थाना रेडर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगणों को चेकिंग के दौरान दिनांक 12.08.2022 को समय करीब 21.30 बजे थाना रेडर के करहियापुरा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

पुलिस अधीक्षक जालौन श्री रवि कुमार द्वारा अवैध शस्त्र तस्कर एवं अवैध शराब, नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी माधौगढ़ के नेतृत्व में थाना रेडर पुलिस टीम को लगाया गया था।

दि0. 12.08.2022 को थाना रेडर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर करहियापुरा मोड़ के पास से समय करीब 21.30 बजे 04 अन्तर्जनपदीय अभियुक्तगणों को 16 किलोग्राम अवैध हाथी का दाँत, एक अदद डिजायर गाड़ी वाहन सं0 UP90 P8788 एवं 1,24,000 रुपये नगद के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ में अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि हम लोगो वन्य जीवों के अंगो की तस्करी करते हैं आज हमलोग हाथी दांत की तस्करी करने जा रहे थे कि आप लोगो द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया हम लोग पूर्व में भी अन्य जनपदो में वन्य जीवों के अंगो की तस्करी कर चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के अपराधिक इतिहास की जानकारी आसपास के जनपदों एवं अन्य प्रान्तों से की जा रही है

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. श्री अशोक कुमार सिंह थानाध्यक्ष रेडर
2. व0उ0नि0 श्री नन्हे लाल सिंह थाना रेडर
3. उ0नि0 श्री गोपीश्याम थाना रेडर
4. का0 937 भानप्रकाश थाना रेडर
5. का0 1856 प्रदीप कुमार थाना रेडर
6. का0 677 विकास चौधरी थाना रेडर
7. का0 936 सतीश चन्द्र थाना रेडर
8. का0 1582 राबिन कुमार थाना रेडर
9. चालक का0 प्रदीप कुमार थाना रेडर